

प्रेस नोट दिनांक-24.07.2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में* वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सँ0 08/2022 धारा 307,504 भादवि0 के वांछित अभियुक्त मुकेश द्विवेदी उर्फ मुक्खा द्विवेदी पुत्र भोला द्विवेदी निवासी दरसेड़ा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त मुकेश द्विवेदी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सँ0 83/2016 धारा 498,504,506,363,376d,342,358,371 भादवि0 व 3(1)10, 3(2)5, 3(1)(2)द,ध एससी/एसटी एक्ट
2. मु0अ0सँ0 58/18 धारा 174ए भादवि0
3. मु0अ0सँ0 154/2016 धारा 364 भादवि0
4. मु0अ0सँ0 214/19 धारा 506 भादवि0 व 3/4 प्रो0 ऑफ डेमेज पब्लिक प्रोपर्टी
5. मु0अ0सँ0 127/2021 धारा 363/366 भादवि0
6. मु0अ0सँ0 08/2022 धारा 307,504 भादवि0
7. मु0अ0सँ0 18/2022 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी:-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. आरक्षी शफीक अहमद
3. आरक्षी बब्बू राजा

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 10 लीटर कच्ची शराब व 24 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(1). थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री इंद्रजीत गौतम के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिव मणि मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त तिवारी उर्फ प्यारेलाल पुत्र स्वर्गीय चुन्नीलाल निवासी झीलन कॉलोनी मजरा करका पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मुकदमा अपराध संख्या 26/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना बहिलपुरवा

2. अनूप विश्वकर्मा

3. आरक्षी संदीप यादव

4. आरक्षी श्रवण कुमार

(2). चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री हरिश्रंद मिश्रा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त विपिन उर्फ कल्लू पुत्र पंचम निवासी पटेल तिराहा खोही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 24 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

24 अदद क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री हरिश्रंद मिश्रा

2. आरक्षी रविन्द्र राठौर

3. आरक्षी श्यामू

(4). चित्रकूट पुलिस द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान

थाना/चौकी/कार्यालय एवं पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों द्वारा की गयी साफ-सफाई

आज दिनांक-24.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में समस्त थाना/चौकी/कार्यालयों एवं पुलिस लाइन में स्वच्छता अभियान के तहत पुलिसकर्मियों द्वारा थाना/चौकी/कार्यालय/पुलिस लाइन परिसर की साफ सफाई की गई साथ ही साथ बैरकों, मालखाना, भोजनालय, कार्यालय एवं शस्त्रों की भी साफ-सफाई की गयी।

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री कृपानंदन शर्मा थाना भरतकूप व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 60/22 धारा 419/420/467/468 471 भादवि0 के वांछित अभियुक्त वीर सिंह पुत्र अवधेश कुमार निवासी मऊब थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. वरिष्ठ श्री कृपानन्दन शर्मा
2. आरक्षी भास्कर शुक्ला
3. मुख्य आरक्षी त्रिलोकीनाथ मिश्र

(6). आज दिनांक-23.07.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।